

had issued in the context of Mr. Chagla's statement made it very clear that the appointment of judge to the supreme Court had been made on the basis of appraisalment of merit of individual judges. That had been made very clear in my statement.

SHRI BASHIR AHMAD: The salutary principle in respect of appointment of judges is seniority. So far as appointment of judges to the Supreme Court is concerned, all the High Court judges have equal merit. The old principle of appointment of judges on the basis of merit imports arbitrariness and should, therefore, be given up. The judges should be appointed only on the basis of seniority and guide lines in this behalf should be laid down by the present Government.

Mr. SPEAKER: He has already answered to this question.

SHRI O. V. ALAGESAN: It is a matter of common knowledge that the various constituents of the Janata Party, before they came together and formed the Government, were swearing by the principle of seniority. (Interruptions).

Mr. SPEAKER: Not in the appointment of Supreme Court Judges. (Interruptions). Now, the Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रेल कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

* 25. श्री यादवेन्द्र दत्त :

श्री उपप्रश्न :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल ही में घोषित बोनस नीति के अनुसार कर्मचारियों को 8.33

प्रतिशत बोनस देने की व्यवस्था तुरन्त कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या विभाग द्वारा कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस न दिये जाने के कारण उनमें घोर असन्तोष है और क्या हड़ताल हो जाने से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री. मधु बंडवते): (क) और (ख): हाल ही में सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर आपातकाल से पूर्व के बोनस अधिनियम को बहाल कर दिया है। रेलवे जैसे सरकारी विभागीय उपक्रम को बोनस अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया है।

रेल कर्मचारियों को भी बोनस देने की मांग करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सभी क्षेत्रों में वेतन, आय और मूल्यों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए सरकार ने हाल ही में एक अध्ययन दल नियुक्त किया है जिसकी रिपोर्ट मिल जाने पर व्यापक अध्ययन कर लेने के बाद ही इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

बोनस के मामले पर रेल कर्मचारियों में बड़ी उत्तेजना है फिर भी, विभिन्न रेलवे यूनियनों के साथ अभी हाल में हुई बैठक के मौके पर रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को उपयुक्त स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

पेट्रोलियम की खोज का काम

* 26. श्री नवाब सिंह चौहान :

श्री सगर गुह

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर तटीय क्षेत्रों और समुद्र तट से दूरस्थ क्षेत्रों में पेट्रोलियम की खोज का कार्य चल रहा है ;

(ख) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्हें देश में पेट्रोलियम की खोज करने के ठेके दिये गये हैं ;